

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

एक मिनी रत्न कंपनी
(कोल इण्डिया लिमिटेड का एक अंग)
जन सर्मक विभाग
कोयला भवन, कोयला नगर
धनबाद - 826005 (झारखण्ड)
दूरभाष/फैक्स : 0326-2230202
वेबसाईट: www.bccl.gov.in
ईमेल: bcclprodhanbad@gmail.com
सीआईएन : U10101JH1972GOI000918



BHARAT COKING COAL LIMITED

'A Mini Ratna Company'
(A Subsidiary of Coal India Limited)
Public Relation Department
Koyla Bhawan, Koyla Nagar
Dhanbad- 826005 (Jharkhand).
Phone/Fax: 0326-2230202
website: www.bccl.gov.in
email: bcclprodhanbad@gmail.com
CIN : U10101JH1972GOI000918

दिनांक -30.04.2018

प्रेस विज्ञप्ति

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में हर माह की तरह इस माह सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्मान में आयोजित समारोह में बीसीसीएल के निदेशक (तकनीकी) परिचालन श्री देवल गंगोपाध्याय एवं निदेशक (कार्मिक) श्री आर एस महापात्रा ने मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे तथा समारोह की अध्यक्षता भी की।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के मुख्यालय कोयला भवन एवं क्षेत्रों से सेवानिवृत्त होने वाले 06 अधिकारियों एवं मुख्यालय के 07 कर्मचारियों को कोयला नगर स्थित सामुदायिक केन्द्र में सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों में डा॰ अशोक तालपात्रा एवं डा॰ रवि शंकर, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, केन्द्रीय चिकित्सालय, धनबाद, श्री विवेका नन्द घोष, मुख्य प्रबंधक (उत्खनन), सिनिडीह वर्कशॉप, श्री सुब्रत कुमार सुराल, श्री राजेन्द्र राम, अवर अभियंता (उत्खनन), श्री सौमित्र बक्शी, अवर अभियंता (वि॰ एवं या॰) तथा मुख्यालय से कर्मचारियों में श्री गणेश गोस्वामी, टी बाँय, प्रशासन विभाग, कोयला भवन, श्री अमित कुमार मजुमदार, वरीय डी॰ई॰ओ॰, एकड़ा वर्कशॉप, श्री भरत महतो, चालक/मेकैनिक, कोयला भवन, श्री मैनेजर राम अहिर, ए॰एस॰आई॰, सुरक्षा विभाग, कोयला नगर, श्री पी॰एल॰ महतो, पम्प ऑपरेटर, असैनिक विभाग, कोयला नगर, श्री गंगाधर महतो, एम॰एफ॰डब्लू॰, भूली चिकित्सालय एवं श्रीमति पावनी हाडीन, सफाई कर्मचारी, कोयला नगर अस्पताल को बीसीसीएल के निदेशक (तकनीकी) परिचालन श्री देवल गंगोपाध्याय एवं निदेशक (कार्मिक) श्री आर एस महापात्रा तथा सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की धर्मपत्नियों द्वारा उन्हें पीएफ, अंगवस्त्र, श्रीफल, पेन्शन पे-आर्डर के साथ स्मृति चिन्ह, सेवा प्रमाण-पत्र एवं हेल्थ कार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर निदेशक (तकनीकी) परिचालन, श्री देवल गंगोपाध्याय ने सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दिया तथा नवनियुक्त अधिकारियों को सुझाव देते हुए कहा कि आप सभी कंपनी के भविष्य हैं और आपका कर्तव्य बनता है कि आप कंपनी के कार्य में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें और कंपनी को एक अच्छी उँचाईयों पर ले जाने में सहयोग करें।

तत्पश्चात निदेशक (कार्मिक) श्री आर एस महापात्रा ने सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी सेवानिवृत्त होने के बाद भी कंपनी को बहुमूल्य सुझाव देते रहे हैं ताकि कंपनी और उँचाई पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कंपनी के लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें बहुत मेहनत करना है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।

उपरोक्त समारोह में निदेशक (तकनीकी) परिचालन श्री देवल गंगोपाध्याय तथा निदेशक (कार्मिक) श्री आर० एस० महापात्रा के अलावे महाप्रबन्धक (असैनिक) श्री आर एन प्रसाद, महाप्रबन्धक (कार्मिक/ राजभाषा) श्री राजपाल यादव, उप महाप्रबन्धक (कर्मचारी स्थापना) श्री बी सिंह, वरीय प्रबन्धक(कार्मिक/कर्मचारी स्थापना) श्री पी के मिश्रा, वरीय प्रबन्धक(कार्मिक) प्रशासन श्री कुमार मजोन तथा सी०ओ०एम०आई० के महासचिव श्री भवानी बंदोपाध्याय तथा श्रमिक प्रतिनिधि की ओर से श्री उदय कुमार सिंह ने सभी सेवा निवृत्तों के कंपनी की उन्नति में उनके योगदान की जमकर सराहना करते हुए बधाई दी तथा इस अवसर पर सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बीसीसीएल परिवार को शुभकामनाएँ दी।

कार्यक्रम का स्वागत भाषण महाप्रबन्धक (कार्मिक/राजभाषा) श्री राजपाल यादव एवं कार्यक्रम का संचालन तथा धन्यवाद ज्ञापन सहायक प्रबंधक(कार्मिक) शेख मापूक ने किया ।

महाप्रबन्धक(जन सम्पर्क)

